



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1939 (श10)

(सं0 पटना 60) पटना, वृहस्पतिवार, 25 जनवरी 2018

सं० प्र०-01-रा०(आ०)-06/17-7764/एम०
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

29 दिसम्बर 2017

श्री राहुल कुमार, पता-काजी फर्जन लेन, नई गोदाम गया द्वारा गया जिले में पत्थर खनन पट्टों को निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन कर संचालित किये जाने के आलोक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गया ने श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, प्रभारी सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, गया के विरुद्ध दिनांक 24.03.2017 को आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 12.07.2017 को प्रथम अपीलीय प्राधिकार प्रण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा भी समीक्षा में पाया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3085/एम0 दिनांक 11.08.17 की धारा-10(4) के अन्तर्गत श्री सिन्हा के स्तर से कार्यवाई अपेक्षित थी, जो श्री सिन्हा द्वारा नहीं की गयी, जिससे प्रथम अपील प्राधिकार द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गया द्वारा पारित आदेश को सही माना गया, जिसके आलोक में श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व के समक्ष अपील दायर किया गया, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 01.09.2017 को आदेश पारित किया गया कि श्री सिन्हा का आचरण बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम-2015 के भावना के प्रतिकूल है। तद्आलोक में श्री सिन्हा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

2. श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है तथा श्री विश्वजीत दाँ, प्रभारी उप निदेशक (मु0), खान एवं भूतत्व विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री सुशील कुमार, अवर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री सिन्हा को निदेश दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 60-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>